



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2119]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2009/अग्रहायण 24, 1931

No. 2119]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2009/AGRAHAYANA 24, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुसूची

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3206(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पंजाब राज्य में दादरी-बवाना-नांगल और स्पर पाइपलाइन परियोजना से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, उद्योग भवन, अत्रेक्षी बिल्डिंग, 18, हिमालय मार्ग, सेक्टर-17, चण्डीगढ़-160017, पंजाब को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

4578 GI/2009

जिला	तालुका	गांव	सर्वे नं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फतेहगढ़ साहिब	अमलोह	सलाना जीवन सिन्हावाला	28/16/3	0.19

[फा. सं. एल-14014/16/2009-जी.पी. (भाग-1)]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2009

S.O. 3206(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas from Dadri-Bawana-Nangal and its spur pipeline project in the State of Punjab, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land)

(1)

Act, 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under subsection (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited, Udyog Bhawan, Annexe Building, 18, Himalaya Marg, Sector-17, Chandigarh-160017, Punjab.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (in Hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fatehgarh Sahib	Amlah Salana	Jiwan Singh Wala	28/16/3	0.19

[F. No. L-14014/16/2009-G.P. (Part-I)]

K. K. SHARMA, Under Secy.